



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 36

मार्च 05, 2021

संख्या 10

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

मद	2020		2021		घट - बढ़	
	28 फरवरी		19 फरवरी		सप्ताह	
	1	2	3	4	5	वर्ष
1 जारी नोट	2321937	2809923	2809879	-44		487941
1.1 संचलन में नोट	2321924	2809908	2809858	-50		487934
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	14	14	21	7		7
2 जमा राशियां						
2.1 केंद्र सरकार	100	100	101	1		1
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना						
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0		0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	550033	499898	462156	-37742		-87877
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	6739	5550	5257	-293		-1482
2.6 अन्य बैंक	34732	29650	29813	163		-4919
2.7 अन्य	398971	985010	1034837	49827		635866
3 अन्य देयताएं	1219283	1409070	1415428	6358		196145
कुल देयताएं / आस्तियां	4531838	5739243	5757513	18270		1225675
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3242475	3965193	4013251	48058		770776
2 सोना	221398	256120	260239	4118		38841
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	981839	1347301	1320154	-27147		338315
4 ऋण और अग्रिम						
4.1 केंद्र सरकार	5081	-	-	-		-5081
4.2 राज्य सरकारें	2882	6441	3938	-2504		1056
4.3 नाबार्ड	0	26628	26848	220		26848
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	54186	90521	84651	-5870		30465
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	-	35	35	-		35
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-		-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-		-
4.8 अन्य	12151	35519	36170	651		24020
5 खरीदे और भुनाए गए बिल						
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-		-
5.2 खजाना	-	-	-	-		-
6 निवेश	1964	1964	1964	0		-
7 अन्य आस्तियां	9862	9521	10264	743		402

*डाटा अनंतिम है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार

मद	26 फरवरी 2021 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			सप्ताह		मार्च 2020 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि.अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	4294511	584554	52156	689	692356	106747	819481	103014
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3986598	542615	47700	509	652783	100402	769326	96791
1.2 स्वर्ण	260239	35421	4118	172	29712	4843	38840	4741
1.3 विशेष आहरण अधिकार	11145	1517	187	9	345	84	814	85
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	36529	5001	151	0	9516	1418	10501	1396

*अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

26 फरवरी, 2021 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएँ (सीआरआर) = ₹449962 करोड़	2021													
	13 फरवरी	14 फरवरी	15 फरवरी	16 फरवरी	17 फरवरी	18 फरवरी	19 फरवरी	20 फरवरी	21 फरवरी	22 फरवरी	23 फरवरी	24 फरवरी	25 फरवरी	26 फरवरी
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	460270	450328	435769	437185	433799	511956	499898	439574	438516	435297	430936	438707	436882	462156
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.3	100.1	96.8	97.2	96.4	113.8	111.1	97.7	97.5	96.7	95.8	97.5	97.1	102.7

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	12 फरवरी 2021 को बकाया	पखवाड़ा	निम्नलिखित अवधि में घटबढ़			
			वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2019-20	2020-21	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	192458	-5499	24590	-41891	40799	-8960
1.2 बैंकों से उधार	41458	-455	-6507	-22543	-8919	-31494
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	17100	784	-2579	937	4292	4540
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	14781074	-16691	652523	1213582	1106829	1554779
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.1	5.2	8.9	9.1	11.8
2.1.1 मांग	1630988	-60554	-148242	13985	75329	267943
2.1.2 मीयादी	13150086	43863	800766	1199597	1031500	1286836
2.2 उधारियां	243484	420	-68750	-65955	-51649	-66020
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	608037	-6678	11753	4361	38703	52638
3 रिज़र्व बैंक से उधार	84620	23	-165242	-201003	-109082	69174
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	550287	-15533	-5805	-73159	76302	-84492
4.1 उपलब्ध नकदी	85483	-3988	3720	-1777	11963	6886
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	464804	-11545	-9525	-71382	64339	-91378
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	138461	-1667	-67466	-16940	-61915	-17121
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	12309	2196	-10022	-7964	-6897	-9921
5.3 बैंकों को अग्रिम	17944	658	-3241	-12588	-4051	-8451
5.4 अन्य आस्तियां	24006	-1523	-6615	-30026	-2274	-12258
6 निवेश	4469578	34944	408500	722228	434701	680021
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.8	12.1	19.3	13.0	17.9
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	4468178	35190	402729	729481	428072	686447
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	1400	-246	5772	-7253	6630	-6426
7 बैंक ऋण	10703593	-1044	270860	332732	602217	661010
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		-0.0	2.8	3.2	6.4	6.6
7 क.1 खाद्य ऋण	75287	-11822	31714	23523	11584	1963
7 क.2 खाद्येतर ऋण	10628306	10778	239146	309209	590633	659047
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	10523869	-1979	307500	374361	617814	694375
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	22752	-797	-1791	-2906	2037	-1681
7 ख.3 भुनाए गए	110757	3400	-20104	-34926	-6674	-27435
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	16003	-1849	-3489	-4455	-2949	-5096
7 ख.5 भुनाए गए	30213	182	-11256	659	-8012	847

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/समाप्त सप्ताह	2020	2021				
	28 फरवरी	29 जनवरी	5 फरवरी	12 फरवरी	19 फरवरी	26 फरवरी
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	4.75	3.82	..	3.72	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	75.83	72.34	..	72.41	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	44.27	27.13	..	27.42	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	28.35	29.97	..	30.24	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	52.79	55.86	..	59.51	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	5.15	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
रिवर्स रेपो दर	4.90	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
मार्जिनल स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
बैंक दर	5.40	4.25	4.25	4.25	4.25	4.25
आधार दर	8.45/9.40	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80	7.30/8.80
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	7.50/7.90	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05	6.55/7.05
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.00/6.40	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50	4.90/5.50
बचत जमाराशि दर	3.25/3.50	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	4.96	3.23	3.20	3.25	3.22	3.25
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.08	3.35	3.37	3.33	3.18	3.17
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.18	3.56	3.59	3.58	3.52	3.48
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	5.16	3.68	3.73	3.74	3.71	3.70
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	6.65	5.96	6.12	6.08	6.24	6.34
@एफबीआईएल संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	72.19	72.95	72.90	72.80	72.73	73.04
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	79.44	88.30	87.20	88.29	87.61	88.80
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	3.82	4.19	3.95	4.12	4.21	5.59
3-माह	3.93	5.48	5.65	5.88	5.77	5.59
6-माह	3.91	5.13	5.28	5.47	5.39	5.19

@10 जुलाई 2018 से, फाइनेंशियल बेंचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) ने अमरीका/डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	12 फरवरी	राशि	%	2019-20	2020-21	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	16799963	18419702	18164	0.1	928297	6.0	1619738	9.6	1420546	9.5	2059338	12.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349748	2745374	38289	1.4	205646	10.0	395625	16.8	228405	11.3	487518	21.6
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	1737692	1753075	-61177	-3.4	-145299	-8.9	15383	0.9	79949	5.7	271861	18.4
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	12674016	13877970	40991	0.3	866264	7.4	1203954	9.5	1104967	9.6	1290102	10.2
1.4 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	43284	61	0.1	1685	5.3	4776	12.4	7225	27.6	9857	29.5
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4960362	5852196	116714	2.0	615561	14.0	891834	18.0	570641	12.9	848145	16.9
2.1.1 रिज़र्व बैंक	992192	1139638	81590		195596		147446		124500		142091	
2.1.2 अन्य बैंक	3968170	4712558	35123	0.8	419965	11.7	744388	18.8	446141	12.5	706054	17.6
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	11361449	-926	0.0	312296	3.0	322804	2.9	656263	6.5	666434	6.2
2.2.1 रिज़र्व बैंक	13166	8416	-185		-11253		-4750		-3958		4306	
2.2.2 अन्य बैंक	11025478	11353033	-741	0.0	323549	3.1	327555	3.0	660221	6.6	662128	6.2
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3801036	4539860	-37063	-0.8	534030	17.4	738824	19.4	640584	21.6	934989	25.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	26348	26618	-	-	392	1.5	271	1.0	456	1.8	339	1.3
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	3026427	3360421	60561	1.8	533983	21.9	333994	11.0	447399	17.7	390568	13.2
2.5.1 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1378342	1417401	-19029	-1.3	93975	8.9	39059	2.8	6092	0.5	264631	23.0

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2020	2021	समाह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
	31 मार्च	26 फरवरी	राशि	%	2019-20	2020-21	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	3029707	3378605	-36057	-1.1	203819	7.4	348898	11.5	308798	11.6	404304	13.6
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचालन में करेंसी	2447312	2836605	-50	-0.0	211468	9.9	389293	15.9	242185	11.5	488366	20.8
1.2 रिज़र्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	543888	497226	-37872	-7.1	-10465	-1.7	-46662	-8.6	59663	11.2	-94278	-15.9
1.3 रिज़र्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	38507	44774	1865	4.3	2816	8.9	6267	16.3	6950	25.2	10216	29.6
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिज़र्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	992192	1064827	-34004		188588		72635		76477		74288	
2.1.1 रिज़र्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	989741	1060932	-31500		187226		71191		75011		73233	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिज़र्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-200893	-589407	-45631		-453694		-388514		-327558		-288564	
2.2.1 बैंकों पर रिज़र्व बैंक के निवल दावे	-214059	-598033	-46886		-442110		-383974		-323468		-293411	
2.3 रिज़र्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	4286707	49207	1.2	624582	21.9	696305	19.4	627427	22.0	813538	23.4
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	26348	26747			427	1.7	399	1.5	473	1.8	432	1.6
2.5 रिज़र्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1378342	1410269	5629	0.4	156084	14.7	31927	2.3	68021	5.9	195390	16.1

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा				एमएसएफ*	स्थायी चलनिधि सुविधा	बाजार स्थिरीकरण योजना	ओएमओ (एकमुश्त)		दीर्घकालीन रेपो परिचालन &	लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन #	म्यूचुअल फंड के लिए विशिष्ट चलनिधि सुविधा	एनबीएफसी/ एचएफसी के लिए विशेष चलनिधि योजना**	निवल अंतर्वेशन (+)/अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12+13-2-4-7-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो*	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर				विक्रय	क्रय					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
22 फरवरी 2021	-	464400	-	-	0	220	-	-	410	-	-	-	-	-463770
23 फरवरी 2021	-	481204	-	-	4	-	-	-	225	-	-	-	-	-480975
24 फरवरी 2021	-	481568	-	-	56	-	-	-	240	-	-	-	-	-481272
25 फरवरी 2021	-	511863	-	-	2	-	-	-	170	-	-	-	-	-511691
26 फरवरी 2021	-	509556	-	200010	58	-	-	10000	10000	-	-	-	-	-709508
27 फरवरी 2021	-	9414	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-9410
28 फरवरी 2021	-	6346	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-6246

*इसमें अतिरिक्त रिवर्स रेपो और अतिरिक्त एमएसएफ परिचालन शामिल हैं (16 दिसंबर 2019 से 13 फरवरी 2020 तक की अवधि के लिए)।

#इसमें लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घकालीन रेपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) दोनों शामिल हैं। ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

**'जुलाई 2020 की आरबीआई अधिसूचना संख्या 2020-21/01 के अनुसार ऋणात्मक (-) चिह्न विशेष चलनिधि योजना में आरबीआई के निवेश स्वरूप प्राप्त परिपक्वता आय को दर्शाता है।'

& ऋण (-) का चिह्न बैंकों द्वारा की गयी चुकौतियों को दर्शाता है।

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2019	2020		2021	वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	दिसंबर	जनवरी	दिसंबर	जनवरी	पिछले महीने की तुलना में	मार्च-अंत की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	150.4	150.2	157.3	156.3	- 0.6	5.2	4.1
1.1 ग्रामीण	152.3	151.9	158.5	156.8	- 1.1	4.7	3.2
1.2 शहरी	148.3	148.2	156.0	155.7	- 0.2	5.7	5.1
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	..	..	118.8	118.2	- 0.5	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	123.0	123.4	124.5	125.9	1.1	4.6	2.0
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	148.9	147.2	146.5	143.9	- 1.8	4.7	- 2.2
3.2 ईंधन और बिजली	103.2	104.7	94.2	99.7	5.8	0.2	- 4.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	118.0	118.8	123.0	124.9	1.5	5.3	5.1

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
29 जनवरी 2021	64080	530	3.82 - 4.72
12 फरवरी 2021	58195	1879	3.62 - 4.77

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
15 फरवरी 2021	399404	88216	3.22 - 13.52
28 फरवरी 2021	390853	69500	3.10 - 12.60

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	28 फरवरी 2020	19 फरवरी 2021	26 फरवरी 2021
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	27447	13315	16616
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	8986	5455	992
3 सीबीएलओ#	360008	672716	560631
4 बाजार रेपो	297486	378296	341540
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	80	430	740

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹करोड़)

26 फरवरी 2021 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	2438	20266	49738	145551
182-दिवसीय	47294	31476	786	146456
364-दिवसीय	120536	146544	18360	460623
सीएमबी				

#दिनांक 05 नवंबर 2018 से मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) सेगमेंट को समाप्त किया गया, तथा उसके स्थान पर त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार

(अंकित मूल्य ₹करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2020 - 21 (26 फरवरी 2021 तक)	2019 - 20 (28 फरवरी 2020 तक)	2019-20	2020 - 21 (26 फरवरी 2021 तक)	2019 - 20 (28 फरवरी 2020 तक)	2019-20
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1257138	710000	710000	1029928	473972	473972
2. राज्य सरकारें	691222	518246	634521	565906	387478	487454

WSS के लिए संकल्पनाएं तथा उन पर आधारित कार्यप्रणालियां WSS हस्तपुस्तिका www.rbi.org.in/scripts/publicationsView.aspx?id=15762 में उपलब्ध है।

समय श्रृंखला आंकड़े इंटरनेट पर <https://dbie.rbi.org.in> में उपलब्ध हैं।

श्री एस एम लोकरे द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित।